Regd. Office: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017
Tel.: +91-11-40517610, E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com, Website: www.aiml.in
CIN: L65993DL1989PLC035409

Ref. No.: AIML/BSE/37/2024-25 Date: September 02, 2024

To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip code: 534064

Sub.: <u>Submission of Newspaper cutting for information regarding 35<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means</u>

Dear Sir/Madam.

This is to inform that the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 25th September, 2024 at 12:00 P.M, through Video Conferencing /Other Audio Visual Means.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Publication published in newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 04<sup>th</sup> August, 2023, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020.

Notice of AGM, Annual Report for F.Y, 2023-24 and other related information will be submitted in due course of time. The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Alliance Integrated Metaliks Limited

Malti Devi Company Secretary

## कब्जा सुचना

जबिक, जना रमॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड (पूर्वतः जनलक्ष्मी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) को **मांग सूचनाएं** जारी की थीं, जिनमें उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नामों के सामने वर्णित बकाया राशि का भुगतान उन पर, भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक, लागू दरों पर ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की

ЯПК	प्राप्त का तिथि से <b>६० दिन</b> के भितर करने का भीग का गई था।						
क्र. सं.	ऋण संख्या	कर्जदार / सह—कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता	13(2) सूचना तिथि /तक बकाया राशि (रू. में)	कब्जा की तिथि/समय एवं प्रकार			
1	45128640000192 एवं 45128640001946	1) हाजी जान मोहम्मद डेरी फार्म, इसके स्वामी श्री इब्राहीम मिलक द्वारा प्रतिनिधित्वकृत,     2) श्री इब्राहीम मिलक (कर्जदार),     3) श्रीमती नसीम(गारंटर),	14-06-2024 क. 69,55,751/- (रूपए उनहत्तर लाख पचपन हजार सात सौ इक्यावन मात्र) 11-08-2024	तिथि : 31-08-2024 समय : अप 01:35 बजे सांकेतिक			
		4) श्री शाहरूख मलिक (गारंटर)	तक	कब्जा			

प्रतिभूत परिसम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति विवरण-1 : 1 कित्ता खाली प्लॉट 93 वर्ग गज, खसरा नंबर 3508 / 2. स्थित ग्राम पसोंडा. लोनी. तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मोहम्मद इब्राहीम पुत्र हाजी जान मोहम्मद द्वारा स्वाधिकृत चौहद्दी : पूरब : भूमि रफीक अहमद, **पश्चिम :** आबादी इब्राहीम, **उत्तर :** रास्ता 15 फीट, **दक्षिण :** आबादी रफीक

**सम्पत्ति विवरण-2: 1** कित्ता आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल परिमाप 193 वर्ग गज, माप 21.57 फीट गुणा 80 फीट 5 इंच, खसरा नंबर 3508 मिन, स्थित ग्राम पसोंडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्रीमती नसीम पत्नी मोहम्मद इब्राहीम द्वारा स्वाधिकृत चौहद्दी : पूरव : आबादी इब्राहीम, पश्चिम : आबादी साबिर, उत्तर : रास्ता 15 फीट, दक्षिण : आबादी रफीक

जबिक यहां ऊपर वर्णित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं. एतदद्वारा यहां ऊपर वर्णित कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है और संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर **जना स्मॉल फाइनैंस** वैंक लिमिटेड प्रभाराधीन होगा।

स्थान :	दिल्ली	एनसीआर
तिथि :	02-09	-2024

हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते जना स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनैंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : दि फेयरवे, भू तल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलर. कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क से सटा, चाल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071. शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यु.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

### कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड 908, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली -- 110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 487 70, 011-40045955

वेक्साइट www.kotiaenterprises.com, ईपैलः compliance@kotiaenterprises.com

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 44वीं वार्षिक आग बैठक (एजीएम) मुरुवार, 28 सितम्बर, 2024 की प्रात: 11:00 बजे 905 न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोढ, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम आयोजन की सचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा।

44वीं एजीएम की सचना और उपरिथति पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ रिमोट ई—वोटिंग के दिशागिदेंशों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां चन सभी सदस्यों को मेज दी गई जिनके ई—मेल आईडी पञ्चचार प्रयोजन के लिए कंपनी / हिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं और कोई भी सदस्य इनकी डार्ड कॉफी के लिए अनुरोध कर सकता हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल आईढी पंजीकृत नहीं कराया है, उपरोक्त दरताबेजों की भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में मेज दी गई हैं। एजीएम के नोटिस का प्रेषण 62 सितम्बर, 2024 को पुरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ परित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 और सेवी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिदम, 2015 के विनिदम 44 के अनुसार कंपनी एजीएम में विचारायीन सभी प्रस्तावित संकल्पों पर अपने सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक पदाति द्वारा अपना वाँट देने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न हैं। सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक बॉटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-बॉटिंग") का उपयोग कर अपना बॉट देने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज विधांजिरी लिमिटेव (एनएसवीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और यथा संशोधित कथित नियमों के नियम 20 के अनुसरण में विवरण नीचें

एजीएम की सुचना में निर्धारित साधारण और विशेष पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा

- इलेक्टॉनिक पद्धति से वीटिंग प्रारंग होने की तिथि एवं सगय 23 सितम्बर, 2024 को प्रात: 09:00 बजे।
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग बंद होने की तिथि एवं रामयः 25 सितम्बर, 2024 को साथं 5:00 बजे।
- 25 सितम्बर, 2024 को साथ 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रोनिक पद्धति से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- इलेक्टॉनिक पद्धति या एजीएम के माध्यम से बोट देने की योग्यता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 19 सितम्बर एक व्यक्ति जो कंपनी के शेवर अधिग्रहीत करता है और सूचना चेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा
- कट-ऑफ विधि अर्थात् 19 सिवम्बर, 2024 को शेवरमारण करता है, वह evoling@nsd.cc.in या (आरटीए), ई -मेल: admin@okylnesta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि यदि वह पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी
- एजीएन में बैलेट पेपर / पोलिंग पेपर के महत्वम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वह सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और बैठक में उपस्थित है, केवल वहीं बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना बोट दे सकता है।
- वह सदस्य जिसने एजीएम से पूर्व अपना बोट रिफोट ई-बोटिंग से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकता हैं लेकिन उसे दोबारा बोट देने की अनुमति नहीं होनी।
- वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ लिंबि अर्थात् 19 सितम्बर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या विपॉजिटरीज द्वारा तैयार किए गए जामार्थी स्वामियों के राजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वहीं रिमोट हूं--वीटिंग के साथ ही एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा का लाग उठाने का हकदार होगा।
- एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.soliantagnises.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdi.com पर प्रदर्शित की गई है।
- t. किसी भी पूछताछ के लिए www.evoling.nsal.com के साजनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-बोटिंग युजर मैनुजल को देख सकते हैं या टोल भी न

1800-222-250 पर कॉल कर सकते हैं। एजीएन के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरन युस्तिका 20 सितम्बर, 2024 से 28 सितम्बर, 2024

तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। बोर्ड के आवेशानुसा

नर्व दिल्ली 02 सिराम्बर, 2024

# स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

CIN: U25208HR1983PLC015135 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 918, सेक्टर 68, आईएमटी, फरीदाबाद-121004 वेबसाइटः www.studds.com, ई-मेलः secretarial@studds.com फोन नंबर: 0129-4296500

42वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी

## प्रिय सदस्य

कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए व्यवसायों का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज (सामृहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.studds.com और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते | हैं। एजीएम में शामिल होने और भागीदारी के तरीके के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए|

वार्षिक रिपोर्ट /एजीएम नोटिस और लाभांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते और बैंक खाता विवरण ('केवाईसी') पंजीकृत/अद्यतन करने

- (क) यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), केवाईसी विवरण; पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), बैंक विवरण (यदि अपडेट नहीं है) आरटीए delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी secretarial@studds.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।
- (ख) यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने केवाईसी विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग तथा सदस्यों द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी (जिनमें वे सदस्य भी शामिल हैं, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है) की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है, जो आपको शीघ्र ही

कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 जुन, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 41 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है, जो एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को किया जाएगा, ताकि लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके।

कपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी के सिचवालय कार्यालय में लिखें।

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के लिए

स्थान : दिल्ली

आशा मित्तल दिनांक: **31 अगस्त, 2024** स्थानः फरीदाबाद (कंपनी सचिव)

अजंता सोया लिमिटेड सीआईएन: L15494RJ1992PLC016617

पंजीकृत कार्यालय : एसपी–918, फेज–।।।, इण्डस्ट्रियल एरिया, जनपद अलवर, भिवाड़ी 301 019, राजस्थान, दूरमाष सं. : 911-6176727, 911-6128880 निगमित कार्यालय : 12वाँ तल, बिगजो ज टॉवर, ए-8, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110 034,

दूरमाष सं.: 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100 वेबसाइट : www.ajantasoya.com, ई-मेल : cs@ajantasoya.com वीडियो कांक्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विनुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में जानकारी रतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अजंता सोया लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'' शक्रवार, २७ सितंबर, २०२४ को अप. १२.३० बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो वेजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जानी है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीबद्धत दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली २०१५ (''सूचीबद्धता विनियमावली'') के प्रावधानों व अनुपालन में, बैठक बूलाने की सूचना (''सूचना''), जो कि नियत समय पर प्रसारित की जायेगी, में निर्धारितानुसार व्यवसाय का संव्यवहार करने के लिये आयोजित की जायेगी।

इस संबंध में एमसीए द्वारा निर्गत पूर्ववर्त्ती परिपत्रों के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत दिनाँक 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 (सामूहिक रूप में ''एमसीए परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) तथा इस संबंध में सेबी द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा निर्गत दिनाँक ७ अक्टूबर २०२३ के परिपत्र सं. सीएफडी पीओडी–२ / पी / सीआईआर / 2023 / 167 (सामूहिक रूप में ''सेबी परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य दृश्य–श्रव्य साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, 30 सितंबर 2024 तक, वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। अतः उक्त परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली २०१५ (''सूचीकरण विनियमावली'') के प्रावधाने के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सुचना तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर कंपनी के उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(टस) के साथ पंजीकत हैं। एजीएम की सचना एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ajantasoya.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com पर तथा इनके साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर

ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करने की विधि **क. भौतिक धारिता :** भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए पते प प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरटीए के पास फॉर्म आईएसआर –1 की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित भौतिक प्रति जमा करके अपने ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट करें

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी-153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110 020 संपर्क नं: 011-40450193 से 97

**अमीतिक धारिता :** कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें तथा अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें। ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने और एजीएम में उपस्थित होने की प्रविधि :

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर अपने वोट डालने का एक अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल

पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रविधि ("रिमोट ई-वोटिंग'') एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी जायेगी।

एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डाले हैं, वे एजीएम में वोट डालने में समर्थ हो

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी

जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के बिंद्वार विवरणों में दिए गए अनुदेशे का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल्स उत्पन्न कर सकते हैं।

भौतिक विधि के अंतर्गत शेयर रखनेवाले सभी सदस्यों के लिये अनिवार्य रूप में अपेक्षित है कि वे फॉर्म एसएच—13 के माध्यम से कंपनी (शंयर कैंपिटल एंड डिबेंचर्स) नियमावली 2014 के नियम 19(1) उपलब्धानसार नामाँकन प्रस्तत करने के लिये. फॉर्म आईएसआर-1 के माध्यम से अपने ई-मेल आईडी. मोबाइल नंबर, पैन तथा अन्य केवाईसी विवरण प्रस्तत / अद्यतन करें अथवा फॉर्म आईएसआर-3 के माध्यम से नामाँकन देने के विकल्प का चयन न करें तथा सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी–1 / पी / सीआईआर / 2024 / 37 दिनाँकित 07 मई 2024 के अनुसार फॉर्म एसएच–14 के माध्यम र नामाँकन में परिवर्तन करें। फार्म्स भी कंपनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com पर उपलब्ध हैं। सेबी ने परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी / पी / सीआईआर माध्यम केवल डिमेट में प्रतिभूतियाँ निर्गत करने हेतु सूचीब कंपनियों का अधिदेशन किया है।

लामाँश प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अध्यादेश की प्रविधि सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत / अद्यतन करें :--

दिनांक : 1 सितंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली

FREE.

मनोज कुमार बंसक

**क.** अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ, जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता बनाए रखते हैं, यवि शेयरों को डिमटेरियलाइज्ड मोड में रखा जाता है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा अपेक्षितानुसार फॉर्म्स

**ख.** स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ, यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो अपेक्षित अनुसमर्थनकारी प्रलेखों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 इसके

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट्स तथा विशेष रूप में, एजीएम में उपस्थित होने, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से या एजीएम की समयावधि में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि को ध्यानपर्वक पढें।

हस्ता./-कंपनी सचिव

तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन : L51101DL2006PLC148967 पंजीकृत कार्यालय : 3/14ए, प्रथम तल, विजयनगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 वेबसाइट : www.tarinienterprises.in,

> दूरभाष : 011-61382621 18वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी बही समापन, रिकॉर्ड तिथि की सूचना

ई मेल : tarinienterprisespytltd@gmail.com, info@tarinienterprises.in

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा तदधीन विरचित नियमावली, भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सुचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की अट्ठारहवीं (18वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम') बुधवार 25 सितंबर, 2024 को अप. 1.00 बजे (IST) पर आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम सूचना में

निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन किया जा सके। परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गयी है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम सूचना की ईमेलिंग 31 अगस्त, 2024 को पूरी हो गई है। उपरोक्त प्रलेख, कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in पर. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.in पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी

ईमेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत / अपडेट करने की विधि

जिन सदस्यों के ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाओं इत्यादि सहित सभी सूचनागत संचार प्राप्त करने के लिए इसे निम्न उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करें :-

• कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट-स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को या तो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020, दूरभाष संख्या : 011-40450193-97 पर उनके कार्यालय में अथवा admin@skylinerta.com पर ई-मेल द्वारा अनुसमर्थनकारी प्रलेखों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक फॉर्म ISR-1 उपलब्ध कराएं। उक्त फॉर्म कंपनी की

वेबसाइट www.tarinienterprises.in पर उपलब्ध है। कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के साथ अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

रिमोट ई—वोटिंग के लिये अनुदेश समय—समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ('सूचीबद्धता विनियमावली') के विनियम 44 के साथ पिटत अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

सदस्य(यों) के मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 18 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 18 सितंबर, 2024 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने हेतु अधिकृत होगा। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेज जाने के उपराँत कंपनी के अंशों का उपार्जन करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 18 सितंबर, 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह अपना फोलियो नंबर / डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करके evoting@nsdl.co.in एवं info@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा

यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 को प्रातःकाल 09:00 बजे (IST) से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सायं 05:00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। इसके बाद NSDL द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे

बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाले हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में पूनः वोट करने के पात्र नहीं

रिमोट ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया तथा विधि तथा एजीएम में भाग लेने के अनुदेश एजीएम

सूचना में दिए जा रहे हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in पर एवं NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में जाकर देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 एवं

1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं तथा NSDL को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी निदेशक मंडल ने सुश्री लवलीन गप्ता (एफसीएस नं. 5287), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी विधि के अंतर्गत एजीएम की समयाविध में ई-वोटिंग तथा एजीएम से पहले आयोजित रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया की जाँच करने के लिए 'जाँचकर्ता' के रूप में

परिणाम एजीएम के समापन के दो कार्यदिवसों के अंदर घोषित किए जाएंगे तथा समेकित जाँचकर्ता की रिपोर्ट के साथ इसे कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in पर NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा BSE लिमिटेड को www.bseindia.com पर इनकी संसूचना भेजी जायेगी।

0. कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंशॉंतरण बहियाँ, एजीएम के उद्देश्यार्थ बृहस्पतिवार 19 सितंबर 2024 से लेकर के शनिवार 25 सितंबर 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

दिनाँक : 01--09--2024 (कंपनी सचिव) एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

सीआईएन : L65993DL1989PLC035409 पंजीकृत कार्यालय : डीएससी-327, दूसरी मंजिल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 दूरभाष : +91-11-40517610, ई-मेल आईडी : alliance.intgd@rediffmail.com; वेबसाइट : www.aiml.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 35वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित

सुचना

प्रिय सदस्यों, कम्पनी अधिनियम, 2013 ('**अधिनियम**') के सभी प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('**सेबी सूचीबद्धता विनियम**') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसायों को सम्पन्न करने के लिए एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंक्स लिमिटेड (''**कम्पनी**'') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को 12.00 बजे अप. पर वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (''ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय ई-वोटिंग के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। सदस्यों को सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। डीमैट या भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं।

कोई सदस्य जिसका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है और जो ईमेल के माध्यम से एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 प्राप्त करना चाहते है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं और एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करवा सकते हैं :

भौतिक धारिता के मामले में: कपया पैन और केवाईसी विवरण (ई-मेल पता और बैंक खाते के विवरण सहित) को निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अन्य प्रासंगिक फॉर्म के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, कार्यालय बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली -110062 के पास investor@beetalfinancial.com और beetalrta@amail.com पर रजिस्टर/अपडेट करें। कंपनी ने पहले ही सेबी परिपत्र संख्या रएडक HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के अनुसार आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों को पत्र भेज दिए हैं, सदस्य कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in पर उपलब्ध प्रासंगिक फॉर्म तक पहुँच सकते हैं। डीमैट धारिता के मामले में: डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट करें जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है।

अधिक सचना के लिए सदस्य कम्पनी/कम्पनी के आरटीए के पास alliance.intgd@rediffrnail.com/ investor@beetalfinancial.com पर

> कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंक्स लिमिटेड दलजीत सिंह चहल चेयरमैन सह पूर्ण कालिक निदेशक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 02.09.2023 डीआईएन : 03331560

**SALE NOTICE** BALAJI DIGITAL SOLUTION PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Liquidator: Mr. Rohit Sehgal Registered Office: Plot No. 39, F & V Service Shop, Commercial Centre G - Block, G - 16 First Floor, Vikaspuri, West Delhi, New Delhi-110018, Email ID: balaji@truproinsolvency.com

Contact No.: +919729048235 (Mr. Rahul Saini)

E-AUCTION

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 26th September, 2024 at 3.00 pm to 5.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date to submit eligibility documents: 17th September, 2024 by 5:00 pm IST Last Date to deposit EMD: 24th September, 2024 by 3:00 pm IST

Sale of Assets and Properties owned by Balaji Digital Solution Private Limited (in Liquidation forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court-IV, New Delhi, vide order dated 31st October 2023. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncitauction.auctiontiger.net Reserve EMD Amount Incremental

BLOCK	Assets	Price (In Rs.)	(In Rs.)	Value (In Rs.)
Α	Sale of the company as a going concern with only the two asset sub-categories mentioned below:  a) The Possible accrual from Insurance Claim litigation (Valued at Rs 3.24 Crores) and b) The Possible accrual from the PUFE Avoidance Application filed (Valued at Rs 0.9 Crore).	Rs. 4.14 Crores	Rs. 41.40 Lakhs	Rs. 5 Lakhs

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited

DOCUMENT, WHICH IS AVAILABLE ON THE WEBSITES i.e. https://ncltauction.auctiontiger.net. THIS SALE NOTICE MUST BE READ ALONGWITH THE "E-AUCTION PROCESS DOUGMENT" T

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bi Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on websites https://ncltauction.auctiontiger.net and https://truproinsolvency.com, Contact: Mr. Ramprasad at +91-6351896834/079-61200586 & 635189683 ramprasad@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net (Ongoing to the link https://ncitauction.auctiontiger.net) interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (I) Company's name (Balaji Digital Solution Private Limited), or by, (II) State and property type)

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Rahul Saini: 9729048235.

The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "Balaji Digital Solution Pvt Ltd - In Liq.", Account No.: 50200089755860, HDFC Bank Limited, Branch: The Peach Tree, C-Block, Sushant Lok1, Gurgaon 122002, IFSC Code: HDFC0002686, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of "Balaji Digital Solution Pvt Ltd - In Liq." or give a Bank Guarantee for the EMD

Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexure can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 17th September, 2024. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (https://ncitauction.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.

In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator.

The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (L0f) to the Successful Bidder in accordance with terms specified under E-auction process document and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount – EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail for feiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.

The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction. 0. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) of adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

1. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. The sale shall be subject to provisions of insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations

13. E- auction date & Time : 26th September, 2024 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes each) Rohit Sehgal

Balaji Digital Solution Private Limited in Liquidation IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 Address for correspondence: 581, 4th Floor, Sector-27, Gurgaon, Haryana, 122002 Date: 02.09.2024 Email 10: balaj@truproinsolvency.com, iamrs 101@gmail.com, Place: Gurugram Contact No.: 9729048235 (Mr. Rahul Saini)

भारतीय स्टेट बैंक

आर्किटेक्ट का चयन

भारतीय स्टेट वैक (एसबीआई) बैंक अधिकारियों के लिए बैंक के मण्डल लेखापरीक्षा कार्यालय, खंड ' वद्याधर नगर, जक्पर में आवासीय भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए "मख्य परियोजना आर्किटेक्ट सा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता" के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी आर्किटेक्ट फर्म / व्यक्तियों से अभिकृषि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

पावता मानदंड एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया बैंक की वैबसाइट https://bank.sbi/web/sbi-in-thenews/procurement-news पर लॉग ऑन करें। सहयोगी दस्तावेजों और मृत्य बोली सहित ईओआई आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23.09.2024 को 3:00 बजे तक है। नियत तिथि की बाद प्राप्त होने वाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकरण में कोई शुद्धि पत्र/ अनुलग्नक हुआ तो उसे केवल बैंक की उपरोक्त वैबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। स्थान: जयपर

दिनांक: 02.09.2024

प्रबंधक (प्रशासन)



इंडियन सुक्रोज लिमिटेड सीआईएन: L15424PB1990PLC010903

पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य : जी.टी. रोड, मुकेरियां-१४४२११, जिला होशियारपुर (पंजाब) ईमेल आईडीः isl.investor@yaducorporation.com, वेबसाइटः www.muksug.in फोनः +91-9115110651/52

### वीडियो कॉब्क्रेंसिंग (भीसी )/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएभीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

इंडियन सुक्रोज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई. 2020 और परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पढ़ें। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा जारी परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से ष्परिपत्रष् के रूप में संदर्भित)। कंपनी ने भीसी/ओएभीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनका ई—मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत/उपलब्ध है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.muksug.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे। सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में प्रदान की जाएगी।

जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनरोध है कि वे ई-वोटिंग यजर आईडी और पासवर्ड, एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 प्राप्त करने के उद्देश्य से नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना ई-मेल पता

कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट िलिमिटेड को admin@mcsregistrars.com या isl.investor@yaducorporation.com पर एक ईमेल के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजें. जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम शेयर प्रमाणपत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और ई-वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या उपयोगिता बिल जैसे निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट

कृपया क्य्यः बस्य (16 अंकों की क्य्यः बस्य या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित होल्डिंग स्कैन की गई प्रति). आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) (isl.investor@yaducorporation.com) या admin@mcsregistrars.com पर

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई—वोटिंग स्विधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और र्डमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

वैकल्पिक रूप से शेयरधारक / सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

इंडियन सुक्रोज लिमिटेड कुणाल यादव प्रबंध निदेशक डीनः 01338110



दिनांक- 31.08.2024

स्थान- मुकेरियां

(भारत सरकार का एक उद्यम) पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 सीआईएन : L15492WB1924GOI004835 दूरभाष: 033 22225612 ई-भेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com

वेवसाइटः www.balmerlawrie.com 107वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) तथा संबंधित विषयों की सूचना

एजीएम बुलाए जाने की ख़बना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर विद्यार-विमर्श करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के साधारण परिपन्न सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के पैरा 3 एवं पैरा 4 के साथ पठित साधारण परिपन्न सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के उप-पैरा 3ए, साधारण परिपन्न सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के जप पैरा (i)ए तथा साधारण परिपन्न सं. 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपत्रों") के अनुसार सदस्यों की शारीरिक रूप में उपस्थिति के वगैर टू-वें वीडियो काँफ्रेंसिंग (**"वीसी")** अथवा अन्य ऑडियो-विज्ञुअल साघनों (**"ओएवीएम")** के जरिए बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 107वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") गुरुवार,

26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12,00 बजे आयोजित की जाएगी एमसीए परिपन्नों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेवी मॉस्टर परिपन्न संदर्भ सं. सेबी/एवओ/सीएकडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांकित 11 जुलाई, 2023 के साथ पठित परिपत्र संदर्भ सं, सेवी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 (सेबी परिपन्न) के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल का पता **शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 (दिन के अंत तक)** पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट/कंपनी/डिपींजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत थे। यह कंपनी की वेबसाइट www.balmerlawrie.com, स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी की इक्विटी शेयरें सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एवं केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड ('केफिन') (पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट तथा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा।

एजीएम में विचार-विमर्श किए जाने वाले मदों के लिए बोटिंग सिर्फ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग प्रक्रिया अथवा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए संचालित की जाएगी। विस्तारित प्रक्रिया/निर्देशावलियों का विवरण एजीएम की सुचना में सम्मिलित हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पता का पंजीकरण नहीं कराया है, वे नीचे उल्लेखित प्रारूप में अपना वोट डाल सकते हैं-मौतिक प्रारूप में शेयर वारण रखने वाले सदस्यगण अथवा जिन्होंने अपने ईमेल का पता कंपनी

के पास पंजीयन नहीं कराया है, वे एजीएम की सूचना में उल्लेखित निर्वेशायलियों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अथवा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना

कंपनी के साथ ई-मेल का पता, बैंक का विवरण तथा अन्य ब्योरा पंजीयन कराने का तरीका-

कंपनी के सदस्यगण (भीतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों के लिए लागू) जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पता, बैंक का विचरण, लाभांश अधिदेश तथा अन्य ब्यौरा का पंजीकरण नहीं कराया है अथवा उसका अद्यतन नहीं कराया है, उनसे पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट ("आरटीए"), केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं - 31 एवं 32, फाइनैंशियल ढिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्सी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032 के पास **गुरुवार 19 सितम्बर, 2024 अथवा उससे पहले** निर्धारित प्रपत्र तथा समर्थित दस्तावेज जमा कर अपने विवरण का पंजीकरण कराने का अनुरोध किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण ध्यान दें कि अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 को उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटों ("डीपी") के साथ पंजीकत विवरण का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लाभांश की पात्रता के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों से उनके ई-मेल का पता, बैंक का विवरण, लामांश अधिवेश सहित उनके ब्याँस तथा अन्य विवरण में किसी भी तरह बदलाव अथवा अद्यतन के लिए सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कंपनी अथवा उनका आरटीए कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। संबंधित सदस्यों द्वारा इस तरह के बदलाव के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों ('डीपी") को सलाह देनी होगी। डीपी द्वारा किए गए इस तरह के बदलाव स्वतः ही कंपनी के तदुपरांत रिकार्ड में प्रतिबिबित होगा ।

यह ध्यान दें कि अंतिम तारीख यानी पुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 को शेयरधारकों के विवरण को लाभांश की पात्रता के उद्देश्य हेतु विचार किया जाएगा। सदस्यों से कंपनी अथवा आरटीए को संबोधित सभी संचार में लेजर फोलियो अथवा क्लाइंट

आईडी तथा ढीपी आईडी नम्बरी का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाता है। बही बंद - एतदद्वारा भी यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेंबी (सचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन आवश्यकताएँ) बिनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभांश के वितरण तथा कंपनी के एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण वही शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

**वोटिंग -** एजीएम में विचार-विमर्श किए जाने वाले मर्दों के लिए वोटिंग एजीएम से पहले रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के जरिए तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (सिर्फ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक योटिंग प्रक्रिया द्वारा अपना वोट नहीं डालने वाले सदस्यों के मामले में) के जरिए संचालित की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 (सुबह 09.00 बजे) शुरू होगी तथा बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 (अपराहन 05.00 बजे) समाप्त होंगी। तत्पश्चात केफिन द्वारा वॉटिंग के लिए रिमोट ई-वॉटिंग प्रारूप निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को भौतिक प्रारूप अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में कंपनी के शेयर धारण रखने वाले

सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं। लाभांश - एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषणा किए जाने पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश अंतिम तारीख, गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी के शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों को इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के अंदर भूगतान कर दिया जाएगा।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 2 सितम्बर, 2024

कते बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

कविता भावसार कंपनी सचिव **954767** 

www.readwhere.com

हस्ता./—

प्रियंका देवी

## **PUBLIC NOTICE**

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

S-376, Panchsheel Park, New Delhi - 110017

Roshan Lal Jain

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. PRANAV ANSAL PERSONAL GUARANTOR OF M/S. ANSAL API INFRASTRUCTURE LIMITED (U45200DL2008PLC179003)

RELEVANT PARTICULARS

1 Name of Debter/December Commenter Adm Chamman & month

correspondence with the Resolution

Professional

1.	Name of Deptor/Personal Guarantor	Mr. Pranav Ansai
2.	Address of the Debtor/Personal Guarantor	26, Feroze Shah Road, New Delhi-110001
3.	Details of order admitting the application	IA-674/2024 in IB-657(PB)/2023 order dated 28.08.2024
4.	Particulars of the Resolution Professional with whom claims are to be registered	Mr. Roshan Lal Jain Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-P00966/2017- 2018/11587 AFA Valid Upto: 04.12.2024
5,	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	AN-46B, Shalimar Bagh, North West, National Capital Territory of Delhi-110088 Email: roshanljain@yahoo.co.uk
6.	Address and e-mail to be used for	Mavent Restructuring Services LLP (IPE)

Email: pg.pranavansal@outlook.com Last date for submission of claims 23.09.2024 "FORM B" 8. Relevant Forms in which claim to Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads be filed available at : Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench Court-III, has ordered

the commencement of a Personal Insolvency Resolution Process against Mr. Pranav Ansal, Personal Guarantor of M/s. Ansal API Infrastructure Limited on 28.08.2024 The creditors of Mr. Pranay Ansal Personal Guarantor of M/s. Ansal API Infrastructure Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 23.09.2024 to the Resolution

Professional at the address mentioned against entry No. 6. The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or by post. Sd/-Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Resolution Professional In the matter of Mr. Pranay Ansal (Personal Guarantor) IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00966/2017-2018/11587 Date: 02.09.2024 Email: pg.pranavansal@outlook.com, roshanljain@yahoo.co.uk Place : New Delhi

SALE NOTICE BALAJI DIGITAL SOLUTION PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Liquidator: Mr. Rohit Sehgal Registered Office: Plot No. 39, F & V Service Shop, Commercial Centre G - Block

G - 16 First Floor, Vikaspuri, West Delhi, New Delhi-110018, Email ID: balaji@truproinsolvency.com Contact No.: +919729048235 (Mr. Rahul Saini) E-AUCTION

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 26th September, 2024 at 3.00 pm to 5.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date to submit eligibility documents: 17th September, 2024 by 5:00 pm IST

Decorne EMD Amount Increments

Last Date to deposit EMD: 24th September, 2024 by 3:00 pm IST Sale of Assets and Properties owned by Balaji Digital Solution Private Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court-IV, New Delhi, vide order dated 31st October 2023. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform

BLOCK	Assets	Price (In Rs.)	(In Rs.)	Value (In Rs.)		
А	Sale of the company as a going concern with only the two asset sub-categories mentioned below:  a) The Possible accrual from Insurance Claim litigation (Valued at Rs 3.24 Crores) and b) The Possible accrual from the PUFE Avoidance Application filed (Valued at Rs 0.9 Crore).	Rs. 4.14 Crores	Rs. 41.40 Lakhs	Rs. 5 Lakhs		

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited

Terms and Condition of the E-auction are as under

https://ncitauction.auctiontiger.net

THE COMPLETE AND DETAILED INFORMATION ABOUT THE ASSETS OF THE COMPANY. ARE AVAILABLE IN THE "E-AUCTION PROCESS DOUCMENT" AS ANNEXURE -VI IN THE DOCUMENT, WHICH IS AVAILABLE ON THE WEBSITES i.e. https://ncltauction.auctiontiger.net. THIS SALE NOTICE MUST BE READ ALONGWITH THE "E-AUCTION PROCESS DOUCMENT" TO GET THE COMPLETE INFORMATION The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid

Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on websites https://ncltauction.auctiontiger.net and https://truproinsolvency.com. Contact: Mr. Ramprasad at +91-6351896834/079-61200586 & 6351896834 ramprasad@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net (Ongoing to the link https://noltauction.auctiontiger.net) interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (I) Company's name (Balaji Digital Solution Private Limited), or by. (II) State and property type):

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Rahul Saini: 9729048235

The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "Balaji Digital Solution Pvt Ltd - In Liq.", Account No.: 50200089755860, HDFC Bank Limited, Branch: The Peach Tree, C- Block, Sushant Lok1, Gurgaon 122002, IFSC Code: HDFC0002686, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of "Balaji Digital Solution Pvt Ltd - In Liq." or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Reques

Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone numbe (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexure can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 17th September, 2024. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e- auction on the portal (https://ncltauction.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders. In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time

will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator

The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder in accordance with terms specified under E-auction process document and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the

local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof . After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the

name of the successful bidder only and will not be issued in any other name.

12. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations E- auction date & Time: 26th September, 2024 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes each)

**Robit Sebgal** Balaji Digital Solution Private Limited-in Liquidation IBBI Regm, No.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 Address for correspondence: 581, 4th Floor, Sector-27, Gurgaon, Haryana, 122002 Date: 02.09.2024 Email ID: balaji@truproinsolvency.com, iamrs101@gmail.com, Contact No.: 9729048235 (Mr. Rahul Saini) Place: Gurugram

## E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC, 2016 SHRI NATH RESEDENCI PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Registered Office: 632, Raja Niwas Kalu Kunwa Chauraha, Banda, Uttar Pradesh-210001. Date of Announcement: -02-09-2024

Date of E-Auction: -28-09-2024 at 10:00 AM to 1:00 PM. (With unlimited extension of 5 minutes each up to 02.00 pm)

Sale of assets and properties of Shri Nath Resedenci Private Limited (in Liquidation), by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench Delhi vide' order dated 16.02.2024 (Order uploaded on website of NCLT on 05.03.2024). The sale will be done by the undersigned through the equation platform; bythe While need as in bondlesis.

Asset	Block	Reserve Price	Earnest Money Amount	Incremental Value
Vehicle reg. no. UP90M 0786	Block-I	Rs.	Rs.	Rs.
(Santa FE CRDI-Diesel Model, Hyundai)		5,40,000/-	54,000/-	1,000/-

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO RECOURSE BASIS" only. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-

auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://nesl.co.in/auction-noticesunder-ibc/. Contact no. for any gueries: Mr. Araventhan S E Mob: +91 93846 76709 and Ms. Gunjan Narula Mob: +91 84470 18554 The assets mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with

prior appointment, contacting Ms. Anshul Sharma: 011-41578410. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount

through DD/NEFT/RTGS/cheque in the Account of "Shri Nath Resedenci Private

Limited - in Liquidation", Account No.: 172602000000746, Branch: Karkardooma-Delhi, IFSC Code - IOBA0001726, drawn on any Scheduled Bank. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit and Request Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address- Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Undertaking and Affidavit as per Annexure-1 (7) Bid Application Form as per Annexure-II 8) Declaration by bidder, as per Annexure-III, the

formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should be reached TO the office of the liquidator or by Email, at the address given below before 05:00PM of 16-09-2024. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount -

EMD Amount) within 90 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Provided that payment made after 30 days shall attract interest @ 12%. In case of any further default, the entire amount shall be forfeited (EMD + any other amount) by the liquidator. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or

adjourn/postpone/cancel the e- Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. The sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful biddenits

nominee/assignee and will not be issued in any other name. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, i.e., Sec 29A in particular) and regulations made thereunder for the successful bidder and/or

his nominee/assignee. The liquidator reserves the right, without giving reasons, at any time and in any respect. to amend and/or annul this invitation.

Ms. Anshul Sharma Liquidator - M/s. Shree Nath Resedenci Pvt Ltd. IP Registration No.: IBBI/IPA-003/IP-N00386/2021-2022/13930 Address: VRSA Insolvency Professionals LLP 11 (3rd Floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 E-mail id: cma.anshulsharma2020@gmail.com Date: 02/09/2024 Process mail id; shrinath.cirp@gmail.com Place: Delhi AFA valid upto: 15.11.2024



## INDIAN SUCROSE LIMITED CIN: L15424PB1990PLC010903

Regd. Office & Works: G.T. Road, Mukerian-144211, Distt. Hoshiarpur (Punjab) Email Id: isl.investor@vaducorporation.com, Website: www.muksug.in

Phone: +91-9115110651/52 INFORMATION REGARDING 33" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of Indian Sucrose Limited

("the Company") will be held on Monday, 30 th September, 2024 at 10:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 and Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and 25th September, 2023 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05<sup>th</sup> January, 2023 and October 7, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at www.muksug.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company/ Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2023-24:

**Physical** Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar Holding and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at admin@mcsregistrars.com or isl.investor@yaducorporation.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2023-24.

Please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Holding Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to (isl.investor@yaducorporation.com) or admin@mcsregistrars.com

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for

procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

**Kunal Yadav** 

Managing Director Date- 31.08.2024 Place- Mukerian DIN: 01338110

## ARIHANT CLASSIC FINANCE LIMITED

Registered Office: G-72, First Floor, Kirti Nagar, Delhi Industrial Area, West Delhi, New Delhi - 110015 Tel.: 011-45061917, FAX: 45061922, E-mail: compliance4arihant@ gmail.com Website: https://arihantclassic.in/

## INFORMATION REGARDING TWENTY-NINTH ANNUAL GENERAL MEETING OF ARIHANT CLASSIC FINANCE LIMITED Members may please note that 29" Annual General Meeting ("AGM") of Arihant Classic Finance

Limited ("the Company") will be held through VC/OAVM on Saturday, 28" Day of September 2024 at 01:00 P.M, in compliance with all the applicable provisions of companies act, 2013 (ACT) and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirement regulations), 2015 read with General Circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/ 2020 dated May 05, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 2B, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and the latest one being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS Div2/P/CIR/2022/079 dated 3" June. 2022. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("Circulars") issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regards (collectively referred to as "Circulars") to transact the business set out in the Notice of calling the AGM. In compliance of the above Circulars, the Notice of AGM and the audited financial statement for the FY

2023-2024 along with Board's report, Auditor's report, and other documents required to be attached thereto (Collectively referred as "Annual Report") will be send only by e-mail to all the members of the Company whose e-mail address are registered with the Company/ Registrar & shares transfer agent (RTA), Alankit Assignments Limited or Depository Participant (DP) in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 29" AGM through VC/OVAM facility only. The instructions for joining the 29th AGM and the manner of the participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM and Members participating through the VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e., https://arihantclassic.in/investor-relations.aspx?type=91 and the website of the MSEI i.e., https://www.msei.in/

## Manner of Registering/updating email-addresses

a) Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by providing Folio No. Name of the Shareholder, Scanned Copy of the Share Certificates (front/back), PAN (selfattested copy of pan card) and AADHAR (self-attested copy of Aadhar card) to the e-mail address of the Company at compliance4arihant@gmail.com or to the RTA at virenders@alankit.com.

Member holding shares in demat form, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with their

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, instructions

for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM. For Arihant Classic Finance Limited

Date: 01.09.2024 Mayur Jair Director

## FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015, E-mail: firl.nbfc@gmail.com Website: www.firl.co.in, CIN: L51503DL1986PLC024329

Information regarding 38" Annual General Meeting to be held through video conferencing/ other audio- visual means

Notice is hereby given that the 38" AGM ("Annual General Meeting") of the Company is scheduled. to be held on Saturday, 28" September, 2024, at 03:00 P.M. (IST) through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM) facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 11/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022. respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79,SEBI/HO/CFD/CMD2/\_CIR/P/2021/11 SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12: 2020. January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), without the physical presence of Members at a common venue.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 has to be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail id are already registered with the Company/ Depositories / RTA. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email ID is already registered with the Company/ Depositories / RTA, Notice of AGM along with annual report for FY 2023-24 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositar<mark>y</mark> please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2023 24 and login details for e-voting.

Physical Holding Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@smasserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla industrial area Phase- II, New Delhi- 110 020 along with letter mentioning folio no. if not registered

De-mat Holding Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. E-voting Information:

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.firl.co.in. The Notice of 38th AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be available on Company's

website www.firl.co.in and website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company.

By order of the Board of Directors For Fortune Industrial Resources Limited

(Bharti) Company Secretary & Compliance Officer

Date: 31.08.2024 Place : Delhi

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## IDFC FIRST Bank

CIN: L65110TN2014PLC097792

(Formerly IDFC Bank Limited)

Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031. TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022.

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Date: 31.08.2024 Place: Delhi

**IDFC FIRST Bank Limited** 

APPENDIX- IV-A

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) & 9 (1) of the

[See proviso to rule 8 (6)& 9 (1)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) as per column (iii) that the below described immovable properties as per column (iv) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Formerly known as IDFC Bank Ltd, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is as described hereunder, for the recovery of amount due to IDFC FIRST Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Ltd) from Borrower (s) and Co-Borrower (s) as per column (i). For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on

S. NO	(i) Demand Notice Amount	(i) Agreementid	(iii) Name of Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s)	(iv) MORTGAGED PROPERTY ADDRESS	(v) Reserve Price Amount	(vi) EMD Amount	(vii) Date and Time of Auction	(viii) Date and Time EMD of Auction	(ix) Date and Time of Inspection	(x) Authorized Officer Name & Contact Number
1	INR 17554545:00/- Demand Notice dated: 03-Jan-2024	10081953181, 10093232451 & 10093232519	M/S Shashi Enterprises, Gaurav Soni & Saroj Devi	All That Piece And Parcel Of Property Bearing Municipal No. 382-383, Entire Second Floor, With Roof Rights, Built On Land Measuring 192 Sq. Yds. Approx., Is More Or Less in Boundaries, Situated In Mohalla Known As Haveli Haider Kuli, Chandni Chowk, Delhi-110006, And Bounded As:- East: Other's Property, West: Other's Property, North: Gali & South: Other's Property	et man man GRASSA Statement	INR 1242720.00/-	04-Oct- 2024 11.00 AM TO 1.00 PM	03-Oct- 2024 10.00 AM TO 5.00 PM	27-Sep- 2024 10.00 AM TO 4.00 PM	Name- Pushpendra Sain Contact Number- 9772306344 Name- Ashutosh Sharma Contact Number- 9915018995

**Authorised Officer** IDFC FIRST Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Ltd)



### AJANTA SOYA LIMITED CIN L15494RJ1992PLC016617

Regd. Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Distt. Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan Ph. No. 911-6176727, 911-6128880 Corp. Office: 12th Floor, Biglo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place,

Wazirpur District Centre, Delhi-110 034 Ph. No. 91-11-42515151, Fax: 91-11-42515100

Website: www.ajantasoya.com, E-mail: cs@ajantasoya.com

INFORMATION REGARDING 33" ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ajanta Soya imited will be held on Friday, 27th September, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing "VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the

Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the business as set forth in the Notice convening the Meeting ("Notice") which would be circulated in due course of time. Pursuant to the General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with previous circulars issued by the MCA in this regard collectively to be referred to as "MCA Circulars") and Circular No. CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other circulars issued by SEBI in this regard (collectively to be referred to as "SEBI Circulars"),

Companies are allowed to hold Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")

or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of Members at a common venue till 30° September 2024. Hence, in compliance with the said circulars and provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. in accordance with the said MCA and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depositary Participant(s). The Physical copies of the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be dispatched to those Members who request for the same. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial

Year 2023-24 will also be made available on the website of the Company i.e. www.ajantasova.com and the website of the stock exchanges where the shares of the Company is listed i.e. www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. Manner of registering / updating email address: a. Physical holding: Members holding shares in physical form, are requested to register/ update

Skyline Financial Services Private Limited D-153 A. Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110 020. Contact No : 011-40450193 to 97

RTA along with relevant documents at below mentioned address:

Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP. Manner of casting vote(s) through E-voting and joining the AGM:

their email addresses by submitting duly filled and signed physical copy of Form ISR-1 to the

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM.

The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to members

The same login credential may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) may generate login credentials by following

instructions given in the Notes to Notice of AGM. All the members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish/update their enail ID, Mobile Number, PAN and other KYC details through Form ISR-1, to furnish the Nomination as provided in Rules 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 through Form SH-13 or to opt out from giving the Nomination through Form ISR-3 and to change the Nomination rough Form SH-14 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024. The forms are also available on the website of the Company at www.ajantasoya.com. SEBI vide circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed Companies to issue Securities in demat only.

Manner of registering mandate for receiving Dividend: Members are requested to register/update their complete bank details:-

With their Depository Participant (DP) with whom they maintain their demat account, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

With Skyline Financial Services Private Limited (RTA) by submitting duly filled and signed Form ISR-1 along with requisite supporting documents at its aforesaid address, if shares are Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular.

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting For Ajanta Soya Limited

Date: 1" September, 2024 Place: New Delhi

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Company Secretary

CIN: L65993DL1989PLC035409 Regd. Off.:: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017, Phone: +91-11-40517610, E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com; Website: www.aiml.in

INFORMATION REGARDING 35" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 35" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Alliance

Integrated Metaliks Limited ('the Company') will be held on Wednesday,

Dear Members:

September 25, 2024, at 12:00 PM through video conferencing("VC")/other audio visual means ("OVAM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act), Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May 2020 & General Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December 2022, Issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020 & Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 Issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business set

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2023-24 will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The said documents will also be available on the website of the Company i.e. www.aiml.in, the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and

website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

out in the Notice calling the AGM, Members attending the AGM through VC /

OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged CDSL to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through CDSL e-Voting System. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/ OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2023-2024 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below:

In case of Physical Holding: : Please register/update the PAN and KYC details

(including E-mail address and Bank Account's particulars) with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi – 110062 at investor@beetalfinancial.com and beetairta@gmail.com. In prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. The Company has already sent letters to the Members for furnishing the required details as per SEBI Circular No. SEBI/ HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16" March 2023, Members may access the relevant Forms available on the website of the Company at

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of

the AGM including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at alliance.intgd@rediffmail.com/investor@beetalfinancial.com

**Daljit Singh Chahal** Chairman Cum Wholetime Director

For Alliance Integrated Metaliks Limited

DIN: 03331560

New Delhi

Place: New Delhi

Date: 02.09.2024

financialexp.epapr.in











